



भारतीय विद्यालय डारसेट

हिंदी कायपत्रिका -12

तुम कब जाओगे अतिथि – प्रश्नोत्तर

तैयार किया गया : श्रीमती बीना स्टिफन

दिनांक : _____ छात्र /छात्रा का नाम : _____

कक्षा : IX “ब”

1.	लेखक अतिथि को कैसी विदाइ देना चाहता था ?	
उ.	लेखक अतिथि को भावभीनी विदाई देना चाहता था। वह चाहता था कि अतिथि को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन तक जाया जाए। उसे बार-बार रुकने का आग्रह किया जाए, किंतु वह न रुके।	
2.	संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना ' इस पंक्ति से आप क्या समझते ह ? विस्तार से लिखिए।	
उ.	'संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना ' का आशय है – संबंधों का बदलना। पहले जो संबंध आत्मीयतापूर्ण थे अतिथि जब। बदलना म बोरियत और तिरस्कार, घृणा अब उनका, थे सौहादपूर्ण, था आयातो लेखक ने उसे प्रसन्नता के साथ निभाया। उसके लिए शानदार डिनर बनवाया। अगले दिन भी उसे अच्छा लंच कराया तथा सिनेमा दिखाया। परंतु इसके बाद भी जब वह टिका रहा तो लेखक के मन म उसके प्रति तिरस्कार जागने लगा। इस प्रकार संबंध परिवतन के दौर से गुजरने लगे।	
3.	कौनआघात सा-(shock) अप्रत्याशित(unexpected) था और उसका लेखक पर क्या असर पड़ा ? 'तुम कब जाओगे अतिथि ' पाठ के आधार पर लिखिए।	
उ.	लेखक के घर मेहमान को आए हुए दो दिन बीत चुके थे। वह उसके जाने का प्रतीक्षा म था। किंतु लेखक को मेहमान ने कहा कि वह अपने मैले कपड़े धोबी को देना चाहता है। यह सुनते ही लेखक को गहरा धक्का लगा। वह समझ गया कि यह अतिथि जल्दी से जानेवाला नहीं है। अतिथि का रहना यूँ रबड़ का तरह खिंच जाएगा इसका आभास होते ही लेखक को बहुत दुख हुआ।	
4.	जब अतिथि चार दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार म क्या-क्या परिवतन आए ?	
उ.	अतिथि चार दिन तक लेखक के घर टिका रहा। उसने जाने का नाम तक नहीं लिया। इससे लेखक के व्यवहार म निम्न परिवतन आए – (i) खाने स्तर डिनर से गिरकर खचड़ी तक आ पहुँचा। (ii) वह गेट आउट कहने को भी तैयार होने लगता है। (iii) लेखक को अतिथि राक्षस के समान लगने लगता है। (iv) बातचीत तक बंद हो जाती है।	

